



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 20—दिसम्बर 26, 2008 (अग्रहायण 29, 1930)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 20—DECEMBER 26, 2008 (AGRAHAYANA 29, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधानमंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110101, दिनांक 3 दिसम्बर 2008

सं. ए-22012/1/2007-पीएमए--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव श्री के. सलिल कुमार को दिनांक 2 दिसम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से प्रधानमंत्री कार्यालय में अगले आदेशों तक उसी पद पर नियुक्त करते हैं।

कमल दयानी, निदेशक

आधार पर वेतन बैंड-2, 9,300-34,800/- रुपये में + ग्रेड वेतन 5,400/- रुपये (अर्न्तम) तथा नियमों के अधीन ग्राह्य सामान्य भत्तों के साथ निजी सचिव के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है :--

1. श्री बी. फणी सुन्दर (प्रोफोर्मा आधार पर)
2. श्रीमती गीता भन्डूला

2. उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा तदर्थ आधार पर निजी सचिव के ग्रेड में प्रदान की गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता तथा अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अर्हता के प्रयोजनार्थ नहीं गिना जाएगा।

सी. बी. राय, निदेशक

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 2008

सं. आर.एस./3/4 (1)/2008/84-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों को 2 दिसम्बर, 2008 से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में तदर्थ

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560094, दिनांक 21 नवम्बर 2008

सं. 2/1/7/2003-1--राष्ट्रपति इस विभाग में डॉ. ई. वी. रमण रेड्डी, संयुक्त सचिव (वित्त) को संयुक्त सचिव (वित्त) के रूप में उनके कार्यों के

आंतरिक सचिव, अंतरिक्ष आयोग के रूप में आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 2008

सं. 14034/33/2006-रा.भा. (प्रशि.)--केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में श्रीमती मोहिनी हिंगोरनी, निदेशक, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग को प्रतिनियुक्ति आधार पर निदेशक के पद पर रुपये 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में दिनांक 24.10.2008 (पूर्वाह्न) से अधिक से अधिक चार वर्ष अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए राष्ट्रपति सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विजय कुमार गुप्ता, अवर सचिव

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 1 दिसम्बर 2008

सं. 23/69/2008-प्रशा.-राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा सेवा इंजी. (85) के श्री राजेश कुमार को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में दिनांक 25 नवम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए. अशोर्लि चलाई, उप सचिव

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 दिसम्बर 2008

सं. 14013/10/2008-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिबीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा संवर्ग के 2002 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री एम्. पी. सरो को दिनांक 13.04.2008 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 2008

सं. ए-32013/2/2008-प्रशा.-I (जी)--राष्ट्रपति, सी. एस. एस. की ग्रेड I अधिकारी श्रीमती प्रतिमा त्यागी को रक्षा मंत्रालय (विज) से उनका स्थानांतरण होने के परिणामस्वरूप 1 सितम्बर, 2008 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी. के. वेलुकुट्टी, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 2008

सं. क-32013/2/2008-प्रशा.-I (जी)--राष्ट्रपति, विधायक विभाग, विधि तथा न्याय मंत्रालय में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री एम्. जी. मूलचंदानी को 13 अक्टूबर, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I में (अवर सचिव) नियुक्त करते हैं।

हरीश चन्द्र, अवर सचिव

सं. ए-32013/2/2008-प्रशा.-I (जी)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी, श्री रहूल कश्यप का राजस्व विभाग से स्थानांतरण होने के परिणामस्वरूप उन्हें 10 अक्टूबर, 2008 के अपराह्न से अगले आदेश होने तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

हरीश चन्द्र, अवर सचिव

सं. क-32013/1/2008-प्रशा.-I (जी)--राष्ट्रपति, श्री एस. के. लोखानी को 30 अक्टूबर, 2008 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों के जारी होने तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में वेतन बैंड-4 (पीबी-4) 37,400-67,000/- + 8,700/- रुपये (ग्रेड वेतन) में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

हरीश चन्द्र, अवर सचिव

सं. ए-32013/2/2008-प्रशा.-I (जी)--राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग के सी.एस.एस. के एक स्थायी अनुभाग अधिकारी, श्री नरेश कुमार वधवा को 21 अक्टूबर, 2008 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में सी.एस.एस. के ग्रेड I (अवर सचिव) में विशुद्ध रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

हरीश चन्द्र, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 2008

सं. ए-32013/1/2008-प्रशा.-I (जी)--राष्ट्रपति, श्रीमती रोली सिंघ, भारतीय प्रशासनिक सेवा (राजस्थान : 94) को 10 अक्टूबर, 2008 की अपराह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में वेतन बैंड-4 (पीबी-4) 37,400-67,000/- रुपये + 8,700/- रुपये (ग्रेड वेतन) में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. के. मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 2008

सं. 24012/30/2007-स्था. (ख)--राष्ट्रपति, श्री सेवद आसाम मझर नक्वी (आई.आर.एस.एस.-91), उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, उत्तर रेलवे,

नई दिल्ली को दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 (अपराह्न) से पांच वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए कर्मचारी चयन आयोग (उत्तरी क्षेत्र) नई दिल्ली में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

सुनील के. अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 27 नवम्बर 2008

सं. 24012/03/2008-स्था. (ख)--डॉ. (श्रीमती) सी. टी. मिश्रा ने, नियुक्ति आदेश के अनुसार सेवा धृति अवधि के पूरा हो जाने के परिणामस्वरूप, अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय का पद दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 (अपराह्न) से छोड़ दिया है।

सुनील के. अरोड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 2008

सं. 14015/10/2005-अ.भा.से. (I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में विहित उपबंधों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, झारखण्ड संवर्ग में 07 रिक्तियों को भरने के लिए दिनांक 18 जुलाई, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में चयन समिति द्वारा तैयार की गई झारखण्ड राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम वाली वर्ष 2005 की चयन सूची दिनांक 19 नवम्बर, 2008 को अनुमोदित कर दी है :--

चयन सूची 2005

क्रम अधिकारी का नाम सं.	जन्म तिथि
(सर्वश्री)	
1. प्रमोद कुमार शर्मा	25.07.1948
2. अशोक कुमार सिन्हा	10.01.1951
3. बद्री नारायण दास (अनु. जा.)	03.07.1951
4. भगवान प्रसाद	03.05.1951
5. गौरी शंकर प्रसाद	11.02.1951
6. बिरेन्द्र कुमार मिश्रा	20.04.1951
7. विजय कुमार सिंह	31.03.1952

2. माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सर्किट बैंच, रांची द्वारा पारित दिनांक 22 अगस्त, 2008 के आदेश के अनुसरण में, उक्त चयन सूची में उपर्युक्त अधिकारियों के नाम का शामिल किया जाना, ओ.ए. सं. 118/2008 के परिणाम के अध्वधीन है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/10/2005-अ.भा.से. (I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम

(1) के सांगि पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप-नियम (1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, झारखण्ड राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को वर्ष 2005 की रिक्तियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) के तहत उनका आर्बटन झारखण्ड संवर्ग में करते हैं :--

क्रम अधिकारी का नाम

सं.

(सर्वश्री)

1. अशोक कुमार सिन्हा
2. बद्री नारायण दास (अनु. जा.)
3. भगवान प्रसाद
4. गौरी शंकर प्रसाद
5. बिरेन्द्र कुमार मिश्रा
6. विजय कुमार सिंह

2. माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सर्किट बैंच, रांची द्वारा पारित दिनांक 22 अगस्त, 2008 के आदेश के अनुसरण में, उक्त चयन सूची में उल्लिखित उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति ओ. ए. सं. 118/2008 के परिणाम के अध्वधीन है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

दिनांक 3 दिसम्बर 2008

सं. 14015/20/2004-अ.भा.से. (I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में विहित उपबंधों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, पंजाब संवर्ग में संबंधित वर्षों की पदोन्नति कोट रिक्तियों को भरने के लिए 2001 के सी.ए.सं. 6373 के दिनांक 24.05.2006 को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, दिनांक 25 फरवरी, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में चयन समिति द्वारा तैयार पंजाब राज्य सिविल सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों के नाम वाली वर्ष 1992-93 से 2006 की पुनरीक्षा चयन सूचियां दिनांक 17 अप्रैल, 2008 को अनुमोदित कर दी है :--

पुनरीक्षा चयन सूची 1992-93

क्रम	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
सं.		
1	2	3
	(सर्वश्री/श्रीमती)	
1.	सतिन्दर पाल सिंह	01.08.1950
2.	सुरजीत सिंह राजपूत	06.10.1951
3.	कुलवीर सिंह सिद्धू	04.08.1946

1	2	3	पुनरीक्षा चयन सूची 1995-96		
	(सर्वश्री/श्रीमती)		1	2	3
4.	जंग बहादुर गोयल	23.08.1946		(सर्वश्री/श्रीमती)	
5.	सुखपाल सिंह मित्त	25.07.1947	1.	मनदीप सिंह	19.05.1955
6.	गेशल लाल कलसिया (अनु. जा.)	07.04.1947	2.	रणजीत सिंह (अनु. जा.)	14.09.1947
7.	जगवीर सिंह बोर	10.09.1950	3.	एच. आई. एस. ग्रेवाल	23.11.1955
8.	कुलवीर सिंह	05.09.1950	4.	रमिन्दर सिंह	12.03.1955
9.	गुरुदेव सिंह सिद्धु	17.01.1953			
10.	जगजीत पुरी	02.03.1951		पुनरीक्षा चयन सूची 1996-97	
11.	बिधि चन्द	15.06.1950	1.	एच. आई. एस. ग्रेवाल	23.11.1955
12.	गेशन लाल कपूर	02.02.1950	2.	रमिन्दर सिंह	12.03.1955
13.	परमजीत सिंह औजला	21.11.1954	3.	जोगिन्दर लाल जैन	06.03.1943
14.	हरजिन्दर सिंह भटल	01.11.1939	4.	विरणदीप सिंह	26.09.1953
15.	हंस राज मेघ (अनु. जा.)	07.10.1949	5.	समीर कुमार	27.10.1956
16.	जगजीत सिंह (अनु. जा.)	22.12.1942	6.	अशोक कुमार	17.09.1955
	पुनरीक्षा चयन सूची 1993-94			पुनरीक्षा चयन सूची 1998	
1.	जगजीत सिंह (अनु. जा.)	22.12.1942	1.	हंस राज मेघ (अनु. जा.)	16.01.1946
2.	नरेन्द्र सिंह	05.07.1940	2.	करम सिंह (अनु. जा.)	01.01.1948
3.	फूलबन्त सिंह सिद्धु	10.04.1944	3.	अमिता अटवाल	26.02.1947
4.	कुलवीर सिंह कंग	17.12.1946		पुनरीक्षा चयन सूची 1999	
5.	कंवल बोर सिंह सिद्धु	21.12.1948	1.	डॉ. अरविन्दर सिंह	04.08.1955
6.	गुरिन्दर सिंह ग्रेवाल	12.07.1951	2.	आर. एल. मेहता	26.04.1950
7.	हरजीत सिंह (I)	07.05.1951		पुनरीक्षा चयन सूची 2000	
8.	एस. कं. आहलुवालिया	02.10.1948	1.	सतवन्त सिंह	17.07.1954
9.	मरुप सिंह ठिल्लो	22.07.1951	2.	एन. कं. बधावन	16.09.1953
10.	रविन्दर सिंह पुरी	20.01.1944	3.	ए. एस. पन्त	31.12.1956
11.	एस. एस. संधु	21.12.1951		पुनरीक्षा चयन सूची 2001	
12.	बाबू लाल (अनु. जा.)	28.02.1948	1.	अशोक कुमार सिन्हा	20.05.1952
	पुनरीक्षा चयन सूची 1994-95		2.	चन्दर शेखर तन्वर	01.09.1952
1.	एस.एस. संधु	21.12.1951	3.	सुरेश कुमार शर्मा	13.04.1953
2.	बाबू लाल (अनु. जा.)	28.02.1948		पुनरीक्षा चयन सूची 2002	
3.	ऊषा आर. शर्मा	24.03.1953	1.	दिपिन्दर सिंह	18.06.1960
4.	बलवीर सिंह सूदन	12.11.1953	2.	एम. आर. अग्रवाल	19.07.1952
5.	वृत्त राम बंग (अनु. जा.)	05.02.1945		पुनरीक्षा चयन सूची 2003	
6.	इकबाल सिंह सिद्धु	07.11.1950	1.	बलविन्दर सिंह	20.06.1954
7.	रणजीत सिंह (अनु. जा.)	14.09.1947			
8.	एच. आई. एस. ग्रेवाल	23.11.1955			

## पुनरीक्षा चयन सूची 2004

1. वी. के. ओहरी 04.11.1950

## पुनरीक्षा चयन सूची 2005

1. हरभूपिन्दर सिंह 28.02.1957

## पुनरीक्षा चयन सूची 2006

1. प्रभजोत सिंह मंद 03.03.1953  
2. अरुणजीत सिंह मिंगलानी 01.10.1959

2. दिनांक 25.5.2006 के आदेश में निहित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के प्रकाश में वर्ष 1992-93 से 2006 की चयन सूचियाँ उपर्युक्त सीमा तक संशोधित मानी जाएंगी और उच्च न्यायालय में लम्बित निम्नलिखित रिट याचिकाओं के अन्तिम परिणामों के अध्वधीन हैं :--

- (i) पंजाब राज्य और अन्य बनाम श्री मोहिन्दर सिंह और अन्य द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. सं. 11001/2000
- (ii) पंजाब राज्य और अन्य बनाम श्री हरकेश सिंह सिद्धू द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. सं. 15421/2000
- (iii) पंजाब राज्य और अन्य बनाम श्री गोपाल कृष्ण और अन्य द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. सं. 15616/2000
- (iv) पंजाब राज्य और अन्य बनाम श्री अजायब सिंह भट्टी द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. सं. 6281/2003
- (v) श्री भगवन्त सिंह द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. सं. 5768/2007
- (vi) श्री मेघराज सिंह द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. सं. 6542/2007
- (vii) श्री सुरजीत सिंह द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. सं. 6543/2007
- (viii) श्री वी. के. ओहरी द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. सं. 6869/2007
- (ix) चण्डीगढ़ स्थित माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा के समक्ष पंजाब राज्य और अन्य बनाम श्री खुशीराम द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. सं. 686/2008
- (x) चण्डीगढ़ स्थित माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा के समक्ष पंजाब राज्य और अन्य बनाम श्री गुरपाल सिंह भट्टी द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. सं. 3297/2008
- (xi) माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण चण्डीगढ़ खण्डपीठ के समक्ष भारत संघ और अन्य बनाम श्री भगवन्त सिंह द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. सं. 145/पी.बी./2008

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

दिनांक 4 दिसम्बर 2008

सं. 14015/20/2004-अ.भा.से. (I)-ख-- भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप-नियम (1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भगवन्त सिंह और अन्य बनाम श्री पी. एस. मन्द और अन्य द्वारा दायर वर्ष

2008 के एस.एल.पी.एस. सं. 12380 तथा 12611-12615/2008 के दिनांक 22.10.2008 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में समाविष्ट निर्देशों के अनुसरण में तथा वर्ष 1992-93 से 2006 की पूर्व संशोधित चयन सूची के आधार पर एस.सी.एस. अधिकारियों की नियुक्ति के आशोधन में, राष्ट्रपति, वर्ष 1992-93 से 2006 की रिक्तियों पर, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पंजाब राज्य सिविल सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को परिवीक्षा पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के तहत पंजाब संवर्ग में उनका आबंटन करती हैं :--

वर्ष 1992-93 की पुनरीक्षा चयन सूची द्वारा नियुक्तियाँ

क्रम अधिकारी का नाम  
सं.

(सर्वश्री/श्रीमती)

1. सतिन्दर पाल सिंह
2. सुरजीत सिंह राजपूत
3. कुलवीर सिंह सिद्धू
4. जंग बहादुर गोयल
5. सुखपाल सिंह गिल
6. रोशन लाल कलसिया (अनु. जा.)
7. जसवीर सिंह बीर
8. कुलबीर सिंह
9. गुरदेव सिंह सिद्धू
10. जगजीत पुरी
11. विधि चन्द
12. रोशन लाल कपूर
13. परमजीत सिंह औजला
14. हरजिन्दर सिंह चहल
15. हंस राज मेघ (अनु. जा.)

वर्ष 1993-94 की पुनरीक्षा चयन सूची द्वारा नियुक्तियाँ

1. जगजीत सिंह (अनु. जा.)
2. नरेन्द्र सिंह
3. फुलवन्त सिंह सिद्धू
4. कुलबीर सिंह कांग
5. कंवल बीर सिंह सिद्धू
6. गुरिन्दर सिंह ग्रेवाल
7. हरजीत सिंह (I)
8. एस. के. आहलुवालिया
9. सरूप सिंह ढिल्लों
10. सविन्दर सिंह पुरी

वर्ष 1994-95 की पुनरीक्षा चयन सूची द्वारा नियुक्तियां  
(सर्वश्री/श्रीमती)

1. एस.एस. मंधु
2. बाबू लाल (अनु. जा.)
3. ऊषा अर. शर्मा
4. बलवीर सिंह सूदन
5. चूटा राम बंगा (अनु. जा.)
6. इकबाल सिंह सिद्धु

वर्ष 1995-96 की पुनरीक्षा चयन सूची द्वारा नियुक्तियां

1. मनदीप सिंह
2. रणजीत सिंह (अनु. जा.)

वर्ष 1996-97 की पुनरीक्षा चयन सूची द्वारा नियुक्तियां

1. एच. आई. एस. ग्रेवाल
2. रमिन्दर सिंह
3. किरणदीप सिंह
4. ममीर कुमार
5. अशोक कुमार

वर्ष 1998 की पुनरीक्षा चयन सूची द्वारा नियुक्तियां

1. हंस राज गंगर (अनु. जा.)
2. करम सिंह (अनु. जा.)
3. अमिता अटवाल

वर्ष 1999 की पुनरीक्षा चयन सूची द्वारा नियुक्तियां

1. डॉ. अरविन्दर सिंह
2. अण. एल. मेहता

वर्ष 2000 की पुनरीक्षा चयन सूची द्वारा नियुक्तियां

1. मनवन्त सिंह
2. एन. के. बधावन
3. ए. एस. पन्त

वर्ष 2001 की पुनरीक्षा चयन सूची द्वारा नियुक्तियां

1. अशोक कुमार सिंगला
2. चन्दर शेखर तलवार
3. सुरेश कुमार शर्मा

वर्ष 2002 की पुनरीक्षा चयन सूची द्वारा नियुक्तियां

1. दिपिन्दर सिंह
2. एम. अर. अग्रवाल

वर्ष 2003 की पुनरीक्षा चयन सूची द्वारा नियुक्तियां

1. बलविन्दर सिंह

वर्ष 2004 की पुनरीक्षा चयन सूची द्वारा नियुक्तियां

1. श्री. के. ओहरी

वर्ष 2005 की पुनरीक्षा चयन सूची द्वारा नियुक्तियां  
(सर्वश्री/श्रीमती)

1. हरभुविन्दर सिंह

वर्ष 2006 की पुनरीक्षा चयन सूची द्वारा नियुक्तियां

1. प्रभजोत सिंह मंड
2. अरुणजीत सिंह मिश्रा

2. उपर्युक्त नियुक्तियां दिनांक 24.05.2006 की सी.ए.सं. 6373/2001 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में समाविष्ट निर्देशों के अनुसरण में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार पुनरीक्षा चयन सूचियों के आधार पर हैं और 3 दिसम्बर, 2008 को इस विभाग द्वारा अधिसूचित किए गए तथा उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित निम्नलिखित रिट याचिकाओं के निष्कर्षतः परिणामों के अध्वक्षीन हैं :—

- (i) पंजाब राज्य और अन्य बनाम श्री मोहिन्दर सिंह और अन्य द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. सं. 11001/2000
- (ii) पंजाब राज्य और अन्य बनाम श्री हरकेश सिंह सिद्धु द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. सं. 15421/2000
- (iii) पंजाब राज्य और अन्य बनाम श्री गोपाल कृष्ण और अन्य द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. सं. 15616/2000
- (iv) पंजाब राज्य और अन्य बनाम श्री अजायब सिंह भट्टी द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. सं. 6281/2003
- (v) श्री भगवन्त सिंह द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. सं. 5768/2007
- (vi) श्री मेघ राज द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. सं. 6542/2007
- (vii) श्री सुरजीत सिंह द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. सं. 6543/2007
- (viii) श्री वी. के. अहगा द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. सं. 6869/2007
- (ix) चण्डीगढ़ स्थित माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा के समक्ष पंजाब राज्य और अन्य बनाम श्री खुशी राम द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. सं. 686/2008
- (x) चण्डीगढ़ स्थित माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा के समक्ष पंजाब राज्य और अन्य बनाम श्री गुरपाल सिंह भट्टी द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. सं. 3297/2008
- (xi) माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण चण्डीगढ़ खण्डपीठ के समक्ष भारत संघ और अन्य बनाम श्री भगवन्त सिंह द्वारा दायर ओ. ए. सं. 145/पी.बी./2008

3. दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 के माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्देशों के अनुसरण में पूर्व-संशोधित चयन सूचियों के आधार पर पहले से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त जिन रिट याचिकाकर्ताओं ने अब तक उपर्युक्त पुनरीक्षा चयन सूचियों में स्थान नहीं पाया है, को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष व्यवस्त किन्हीं विद्यमान रिक्तियों पर व्यवस्थित किया जाएगा और भारत संघ द्वारा अधिसूचित होने तक वे उन रिक्तियों पर बने रहेंगे।

एस. एम. शुक्ला, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून 2008

सं. 51 (फा. सं. ए-38013/8/2008-प्रशा. 1)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री ओ. पी. तंवर, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के तहत दिनांक 13 जून, 2008 (पूर्वाह) की सरकारी सेवा से स्वेच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 52 (फा. सं. ए-19011/13/2008-प्रशा. 1)--राष्ट्रपति, श्री नजिब शाह, भारतीय राजस्व सेवा (सी.शु. एवं के.उ.शु. : 79) की दिनांक 16.06.2008 (पूर्वाह) से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 19 जून 2008

सं. 53 (फा. सं. 19014/9/2008-प्रशासन-1)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (के.स.से.) के नियमित सहायक श्री राजीव कुमार की उनकी पदोन्नति पर दिनांक 18.06.2008 (पूर्वाह) से 30.06.2008 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, राजस्व विभाग में पूर्णतः तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नामित अधिकारी को उक्त अल्पकालिक पदोन्नति उन्हें नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा करने का अधिकार नहीं देती और अल्पकालिक आधार पर उनके द्वारा की गई सेवाओं की गणना की अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं की जाएगी।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 30 जून 2008

सं. 54 (फा. सं. ए-19012/4/2008-प्रशासन-1)--राष्ट्रपति, श्री प्रणव खुल्लर, भारतीय डाक एवं संचार लेखा और वित्तीय सेवा (आई पी एंड टी ए एंड एफ एस) (1993) को दिनांक 25.06.2008 (पूर्वाह) से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 1 जुलाई 2008

सं. 55 (फा. सं. ए-19012/18/2007-प्रशासन-1)--इस विभाग की दिनांक 12.04.2007 की अधिसूचना सं. 104 के अनुक्रम में, भारत के राष्ट्रपति,

श्री अंशुमन पटनायक, उप-सचिव, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर-94) की दिनांक 12.11.2009 तक अर्थात् उनकी पांच वर्षों की अवधि की शेष अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, उनके लिए एक विशेष उपाय के रूप में राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 15 जुलाई 2008

सं. 58 (फा. सं. ए-19011/16/2008-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, श्री एन. बी. सिंह भारतीय राजस्व सेवा (आयकर-1971) की दिनांक 30 जून, 2008 (अपराह) से और अगले आदेशों तक, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 3 सितम्बर 2008

सं. 70 (फा. सं. ए-19013/19/2002-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, राजस्व विभाग में वर्तमान में अवर सचिव के रूप में तैनात श्री एन. राजगोपालन की दिनांक 01.08.2008 (पूर्वाह) से तथा अगले आदेशों तक वैयक्तिक आधार पर अवर सचिव के पद का उप सचिव के पद के रूप में उन्नयन करके पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

- (i) तदर्थ पदोन्नति ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करती है।
- (ii) तदर्थ व्यवस्था किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 18 सितम्बर 2008

सं. 71 (फा. सं. ए-19013/8/2006-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, राजस्व विभाग में वर्तमान में अवर सचिव के रूप में तैनात श्री वी. के. लुथरा की दिनांक 01.09.2008 (पूर्वाह) से या अगले आदेशों तक पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

- (i) तदर्थ पदोन्नति ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करती है।

- (ii) सदृश व्यवस्था किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 30 सितम्बर 2008

सं. 72 (फा. सं. ए-19011/19/2008-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, सुश्री पेमिन्ता भंडारी, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 72008) को दिनांक 31.08.2008 (अपराह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इसमें जो भी पहले हो, रु. 24,050-650-26,000/- (पूर्व संशोधित) वेतनमान में चंडीगढ़ में आयकर लोकपाल के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 6 अक्टूबर 2008

सं. 77 (फा. सं. ए-19013/26/2004-प्रशा.-1)--इस विभाग की अधिसूचना सं. 92 दिनांक 26.10.2004 और 103 दिनांक 12.10.2007 के क्रम में श्री के. एम. नौदियाल भारतीय राजस्व सेवा (सी एंड सी ई) अधिकारी को वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, राजस्व विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि 1 वर्ष के लिए 1.10.2008 पूर्वाह्न से 30.09.2009 अपराह्न तक अर्थात् प्रतिनियुक्ति के पांचवें वर्ष के लिए बढ़ाई जाती है।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 नवम्बर 2008

सं. ए-12011/12/2008-प्रशा.-2--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 5.11.2008 के फा. जा. सं. ए-5/12/2007-सीएस-II के तहत वर्ष 2005 की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के आशुलिपिक ग्रेड "ए" और "बी" (समाश्लेषित) प्रवर सूची में उनका नाम सम्मिलित किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, इस समय आर्थिक कार्य विभाग में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में कार्यरत सीएसएसएस के निम्नलिखित वेतनमान सहायकों को 19.11.2008 के पूर्वाह्न से पीबी-2 में 9,300-34,800-44,800 रुपये (ग्रेड पे) के वेतनमान में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में नियमित आधार पर सीएसएसएस के निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :-

1. सुश्री रेखा गुप्ता
2. सुश्री नीरजा जयगमन
3. सुश्री मनोज भट्टाचार्य
4. श्रीमती रमा मुंते

वी. रामकुमार, अवर सचिव

दिनांक 3 दिसम्बर 2008

सं. ए-19011/2 2008-प्रशा. 2--श्री पी. चिदम्बरम द्वारा वित्त मंत्री का पद छोड़ने के परिणामस्वरूप, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में

12-01-11-2008

वित्त मंत्री के महासचिव डॉ. सुभाषिण गंगोपाध्याय को 1 दिसम्बर, 2008 के अपराह्न से इस विभाग में उनके पद से कार्यमुक्त किया जाता है।

2. तदनुसार डॉ. सुभाषिण गंगोपाध्याय और भारत सरकार के बीच 4 फरवरी, 2008 का संविदा करार उस तारीख से समाप्त हो गया है।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 2008

फा. सं. ए-19012/03/2005-प्रशा.-1 ए--भारतीय आर्थिक सेवा संवर्ग के 28 नवम्बर, 2008 के आदेश सं.-13016/1/2008-आईईएस (पार्ट) के तहत उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड से उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड-एचएम (एचएजी-) में उनकी पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग में वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार के पद पर कार्यरत श्री आर. सी. श्रीनिवासन, भा. आ. से. को 1 दिसम्बर, 2008 से 30 जून, 2009 तक योजना आयोग से आर्थिक कार्य विभाग में अस्थायी रूप से स्थानांतरित पद पर 80,000/- रुपये (नियत) के संशोधित वेतन में इसी विभाग में प्रधान सलाहकार नियुक्त करते हैं।

एस. के. वामा, निदेशक

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्टूबर 2008

सं. ए-45011 07/2006-स्था-1--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 अगस्त, 2008 के फा. जा. सं. 6/3/2006-सीएस-1 (एस) के द्वारा वर्ष 2004 के लिए अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड की चयन सूची (वरिष्ठता कोट) में उनका नाम सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 12 अगस्त, 2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	सहायक की एससीएलएल डन सं. धारा मुंबई वर्ष	विभाग/कार्यालय का नाम जहां चयनमान में अधिकारी है
(सर्वश्री)			
1.	आर. के. जायसवाल	200-1990	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
2.	बी. के. गुप्ता	204-1990	वारी उद्योग विभाग
3.	भाषिक ब्रजधारी	475 1990	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

सीएसएस के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में इन व्यक्तियों को नियुक्त श्री कैलाश चन्द्र द्वारा संघ सरकार के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर लिखित याचिका (सी.) सं. 13245-60/2005 तथा श्री सोरेशु मिन्हा द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष संघ सरकार के विरुद्ध दायर ओए सं. 1083/2007 तथा एमए सं. 1171/2007 के फैसले के



अध्यधीन होगी। उपरोक्त अधिकारी को प्रदान किये जाने वाले गैर-क्रियाशील वेतनमान आदि जैसे वित्तीय लाभ उपरोक्त दो न्यायालय के मामलों के फैसले के अध्यधीन होंगे।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

#### पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 दिसम्बर 2008

सं. पृविमं/31/3/2007-स्था.--पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सक्षम अधिकारी, सर्वश्री असीम कुमार मजूमदार और एस. के. चौधरी, कनिष्ठ तकनीकी सहायकों को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में 6,500-200-10,500/- रुपये (संशोधित पूर्व) के वेतनमान में 23.10.2008 से 22.04.2009 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हों, कनिष्ठ विश्लेषक के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से इन अधिकारियों को भविष्य में इस पद पर नियमित किए जाने और वरिष्ठता आदि जैसे लाभों का कोई अधिकार नहीं होगा। मंत्रालय को संबंधित अधिकारियों को बिना कोई कारण बताए या बिना नोटिस इत्यादि दिए इस नियुक्ति को रद्द करने का अधिकार प्राप्त है।

संदेश सक्सेना, अवर सचिव

#### पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 अक्टूबर 2008

सं. 17016/24/2000-भा.व.से.-II--भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और झारखंड सरकार तथा आंध्र प्रदेश सरकार की सहमति से सक्षम प्राधिकारी ने श्री डी. वेंकटेश्वरलू, भारतीय वन सेवा (जे एच : 96) को उनके आंध्र प्रदेश सरकार में कार्य भार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष अवधि के लिए झारखंड संवर्ग से आंध्र प्रदेश संवर्ग में अंतः संवर्ग प्रति नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया है।

ए. के. लाल, निदेशक

दिनांक 3 नवम्बर 2008

सं. 19011/18/2008-भा.व.से.-I--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के ए. जे. एम. यू. टी. संवर्ग के आर्बटन वर्ष 1977 के भारतीय वन सेवा अधिकारी श्री आर. के. गोयल को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में पे बैंड 4 (37,400-67,000 ग्रेड पे 10,000/- रुपये) में वन महानिरीक्षक के पद पर 3 नवम्बर, 2008 पूर्वाह्न से 23 अक्टूबर, 2010 अथवा आगामी आदेशों तक के लिए, जो भी पहले हो, वन महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए. के. लाल, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 8 (3)/2004 ईई (एम)--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय (एनएमएनएच) की वरिष्ठ शैक्षिक सहायक डॉ. (श्रीमती) रीना

डे को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय (एनएमएनएच) में 10,000-15,200/- रुपये के वेतनमान में सीधी भर्ती के आधार पर दिनांक 14 अगस्त, 2008 पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक वैज्ञानिक 'ग' के पद पर नियुक्त करते हैं।

जे. श्रीरामन, अवर सचिव

दिनांक 25 सितम्बर 2008

सं. 8 (24)/2005-ई ई (एम)--राष्ट्रपति, श्री जी. एन. इन्द्रेषा और श्रीमती नाज रिजवी को राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय (एनएमएनएच), नई दिल्ली में फ्लेक्सिबल कम्पलीमेंटिंग स्कीम के अंतर्गत पदोन्नत होने पर 10,000-15,200/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 04 अगस्त, 2008 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वैज्ञानिक 'सी' के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री जी. एन. इन्द्रेषा और श्रीमती नाज रिजवी द्वारा एनएमएनएच में 8,000-13,500/- रुपये के वेतनमान में रिक्त किए गए वैज्ञानिक 'बी' के दो निचले पद उनकी पदोन्नति की तारीख से समाप्त हो गए हैं।

जे. श्रीरामन, अवर सचिव

सं. 8 (24)/2005-ई ई (एम)--राष्ट्रपति, डॉ. पी. रे. और श्री आर. आर. बाकाडे को राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय (एनएमएनएच), नई दिल्ली में फ्लेक्सिबल कम्पलीमेंटिंग स्कीम के अंतर्गत पदोन्नत होने पर 12,000-16,500/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 04 अगस्त, 2008 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वैज्ञानिक 'डी' के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. डॉ. पी. रे. और श्री आर. आर. बाकाडे द्वारा एनएमएनएच में 10,000-15,200/- रुपये के वेतनमान में रिक्त किए गए वैज्ञानिक 'सी' के दो निचले पद उनकी पदोन्नति की तारीख से समाप्त हो गए हैं।

जे. श्रीरामन, अवर सचिव

#### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 2008

सं. ए.-12025/1/2008-सी. एच. एस.-VI--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. वी. मनीकावासू को दिनांक 14 अगस्त, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में दंत शल्य चिकित्सक के पद पर 8,000-275-13,500/- (संशोधन पूर्व) रुपये के वेतनमान में परवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

पवन कुमार, अवर सचिव

दिनांक 3 दिसम्बर 2008

सं. ए.-38020/1/2005-सी. एच. एस.-VI--डॉ. (श्रीमती) जी. के. सच्चर, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के (दंत चिकित्सा) (एन. एफ. एस. जी.) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 31 मई, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पवन कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 2008

सं. ए.-12025/15/2008-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. गौरी नाबियार सेनगुप्ता को दिनांक 13.10.2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सार्वजनिक स्वास्थ्य उप-संवर्ग में सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ग्रेड-II के पद पर एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

बी. पी. राणा, अवर सचिव

सं. ए.-12025/38/2007-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. पाइको सक्सेना को दिनांक 25.01.2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उप-संवर्ग में एम्युनि विज्ञान एवं स्त्री रोग विज्ञान की सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

बी. पी. राणा, अवर सचिव

सं. ए.-12025/7/2008-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. (श्रीमती) प्रजा शर्मा को दिनांक 6 अक्टूबर, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सार्वजनिक स्वास्थ्य उप-संवर्ग में सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ग्रेड-II के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

बी. पी. राणा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110108, दिनांक 4 दिसम्बर 2008

सं. ए.-12025/41/2007-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. इंदु भूषण कुमार को दिनांक 07.05.2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. इंदु भूषण कुमार को केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डॉ. इंदु भूषण कुमार दो वर्ष की परीक्षा अवधि में रहेंगे।

श्रीमती माया प्रकाश, अवर सचिव

सं. ए.-12025/168/2006-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. चन्द्र प्रकाश को दिनांक 21.2.2008 के पूर्वाह्न से अगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. चन्द्र प्रकाश को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. चन्द्र प्रकाश दो वर्ष के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

श्रीमती माया प्रकाश, अवर सचिव

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी  
(आयुष) विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 2008

सं. ए.-19011/03/2008-आयुष (स्था.-II)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पत्र संख्या 5.11.2008-ईओ (एसएम-1) दिनांक 24 नवम्बर,

5/12/01-II-2008

2008 के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (तमिलनाडु : 87) के अधिकारी श्री बी. आनंद को 25 नवम्बर, 2008 के अपराह्न से और अगले आदेशों तक 18,400/- 22,400/- रुपये (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

टी. एस. भाटिया, उप सचिव

दिनांक 26 नवम्बर 2008

सं. ए.-19011/01/2006-आयुष (स्था.-II)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पत्र सं. 5/8/2005-ईओ (एसएम-1) दिनांक 12.11.2008 के अनुसरण में, श्री वर्गीज़ सैम्युअल, भा.प्र.से. (जम्मू व कश्मीर : 76) संयुक्त सचिव, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 28/11/2008 के अपराह्न से आयुष विभाग में उनके कर्तव्यों से कार्यभार किया जाता है।

श्री वर्गीज़ सैम्युअल, भा.प्र.से. (जम्मू व कश्मीर : 76), अपनी अगली तैनाती हेतु मुख्य सचिव, जम्मू एवं कश्मीर सरकार को रिपोर्ट करेंगे।

टी. एस. भाटिया, उप सचिव

सं. ए.-12022/01/99-भा.चप/स्था.-II--कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के का. जा. संख्या 13.4/2008-ईओ (एमएम-1) दिनांक 7.07.2008 के अनुसरण में, श्री संजीव कुमार चड्ढा, भारतीय वन सेवा (उड़ीसा : 89), निदेशक, आयुष विभाग को मेवाएं उनके पार्श्व स्थानांतरण पर केन्द्रीय सशक्त समिति (सीसीसी) के निपटान पर उनकी सेवाओं को उत्तरोत्तर प्रस्तुत करने हेतु 1 दिसम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निपटान पर प्रस्तुत किया जाता है (स्थानांतरण पर)।

टी. एस. भाटिया, उप सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 2008

सं. 38017/1/2008-एम-1--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर श्री पी. जी. चौधरी, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, प्रधान शाखा कार्यालय, नागपुर दिनांक 31.10.2008 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

राधेश्याम, अवर सचिव

जनशायी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 नवम्बर 2008

सं. 11019/2/2005-स्थापना--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के दिनांक 31.10.2008 के कार्यालय आदेश संख्या 13016/2/2008-आईईएस के अनुपालन में इस मंत्रालय के आर्थिक

सलाहकार श्री बी. सी. मुंडा को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में अपना नया कार्यभार ग्रहण करने के लिए उन्हें 10.11.2008 अपराह्न से कार्यमुक्त करते हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 नवम्बर 2008

सं. 3 (9)/2008-कार्मिक-I--सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इस विभाग में सहायक श्रीमती मुनी देवी को दिनांक 26.11.2008 के पूर्वाह्न से पे बैंड-2 अर्थात् 9,300--34,800/- रुपये में 4,800/- रुपये के ग्रेड में अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया है।

2. उनकी नियुक्ति नियमित पदधारक के प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण हुए रिक्त स्थान पर की जा रही है तथा प्रतिनियुक्ति पर गए ऐसे पदधारक के वापस आने पर नियमित रिक्त स्थान पर समायोजित नहीं किए जाने की स्थिति में उन्हें सहायक के मूल पद पर पदावनत कर दिया जाएगा।

गिरीश सहायक, उप निदेशक

दिनांक 28 नवम्बर 2008

सं. 4 (406)/88-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक सम्बद्ध कार्यालय मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय में महानिदेशक डॉ. शांति लाल सारथी (कर्मचारी कोड सं. 67) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.11.2008 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

सं. 4 (202)/82-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'जी', डॉ. टी. के. शेषाद्रि (कर्मचारी कोड सं. 111) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.11.2008 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 2008

सं. ए.-31013/01/03-आर. एस.--राष्ट्रपति, श्री के. जे. एस. नायडू, स्थानापन्न रेल संरक्षा आयुक्त को सहर्ष दिनांक 15.12.2007 से समान पद पर स्थाई रूप से नियुक्त करते हैं।

ओमा नन्द, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर 2008

सं. ई.आर.बी.-I/2007/10/4--श्री मोहम्मद अशरफ, निजी सचिव, रेलवे बोर्ड का 29.11.2008 को निधन हो गया है।

मैथ्यू जॉन, सचिव

रेलवे बोर्ड

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 3 दिसम्बर 2008

सं. ए.-22013/4/89-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्री आर. सी. मिश्रा, आईएस (एमटी : 78) को दिनांक 21.11.2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक शहरी विकास मंत्रालय में 37,400--67,000/- रुपये के पे बैंड तथा 12,000/- रुपये के ग्रेड पे में अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

वी. के. शर्मा, निदेशक (प्रशासन)

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 2008

सं. ए.-32012/05/2008-आईएसएच-II--राष्ट्रपति जी, श्री एच. के. श्रीवास्तव को दिनांक 01 नवम्बर, 2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 14,300-400-18,300/- रुपये के संशोधन पूर्व वेतनमान में खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद में निदेशक, खान सुरक्षा (यांत्रिकी) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुभाष चन्द, अवर सचिव

## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110001, the 3rd November 2008

No. A.22012/1 2008-PMA—The President is pleased to appoint Shri K. Salil Kumar, Under Secretary of CSS in the same capacity in the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 2nd December 2008 until further orders.

KAMAL DAYANI, Dir.

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 3rd December 2008

No. RS/3 4(1) 2008 84-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following Personal Assistants in the Rajya Sabha Secretariat to officiate on ad-hoc basis in the grade of Private Secretary in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800 + Grade Pay of Rs. 5400 - (provisional) plus usual allowances admissible under the rules in that Secretariat with effect from 2nd December, 2008 until further orders:

- (i) Shri B. Phani Sunder (on proforma basis)
- (ii) Smt. Geeta Bhandula

2. The service rendered on ad-hoc basis by the above-mentioned individuals in the grade of Private Secretary will not be counted for the purpose of seniority in that grade and for eligibility for promotion to the next higher grade.

C. B. RAI, Dir.

## DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 231, the 21st November 2008

No. 2 1/7 2003-1—The President is pleased to appoint Dr. L. V. Ramana Reddy, Joint Secretary (Finance) in this Department as Secretary, Space Commission, in addition to his duties as Joint Secretary (Finance) until further orders.

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 5th December 2008

No. 14034 33 2006-OL (Trg.)—The President is pleased to appoint Smt. Mohini Hingorani, Director, (Central Secretariat Official Language Service, as Director in the Scale of Pay of Rs. 14,300-400-18,300/- in the Central Hindi Training Institute Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, with effect from the forenoon of 24.10.2008 on deputation basis for a period not exceeding four years, or till further orders, whichever is earlier.

VIJAY KUMAR GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH  
EASTERN REGION

New Delhi-110011, the 1st December 2008

No. 23/69 2008-Admin.—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar, I. Def. Ser. Engg. (85) as Director in the Ministry of Development of North Eastern Region with effect from the forenoon of 25th November, 2008.

A. ASHOLI CHALAI, Dy. Secy.

## MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. &amp; PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL &amp; TRAINING)

New Delhi, the 2nd December 2008

No. 14013 10 2008-AIS-II—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri S.P. Srow, a member of the Indian Administrative Service, borne on the Haryana Cadre of 2002 batch, in the Indian Administrative Service, with effect from 13.04.2008.

G. C. PANDEY, Under Secy.

New Delhi, the 3rd December 2008

No. A.32013 2/2008-Ad.I(G) —Consequent upon her transfer from Ministry of Defence (Finance), the President is pleased to appoint Smt. Pratima Tyagi, a Grade I Officer of CSS, as Under Secretary in the Department of Personnel and Training in the scale of Pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 1st September, 2008, until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Dy. Secy.

New Delhi, the 3rd December 2008

No/A.32013 2 2008-Ad.I (G)—The President is pleased to appoint Shri S. G. Mulchandaney, a permanent Section Officer of CSS cadre of Legislative Department, Ministry of Law and Justice to Grade I of CSS (Under Secretary) in the Department of Personnel & Training purely on ad-hoc basis in the scale of Pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 15th October, 2008, until further orders.

HARISH CHANDER, Under Secy.

No. A. 32013 2 2008 Ad.I (G)—Consequent upon his transfer from Department of Revenue, the President is pleased to appoint Shri Rahul Kashyap, a Grade I Officer of CSS, as Under Secretary in the Department of Personnel and Training in the scale of Pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the afternoon of 10th October 2008, until further orders.

HARISH CHANDER, Under Secy.

No. A.32013/1/2008-Ad.I(G)—The President is pleased to appoint Shri S.K. Lohani, as Director in the pay band-4 (PB-4) Rs. 37,400—67,000+8,700/- (Grade Pay) in the Department of Personnel & Training with effect from the forenoon of 30th October, 2008 until further orders.

HARISH CHANDER, Under Secy.

No. A.32013/2/2008-Ad.I(G)—The President is pleased to appoint Shri Naresh Kumar Wadhwa, a permanent Section officer of CSS cadre of Department of Economic Affairs to Grade I of CSS (Under Secretary) in the Department of Personnel & Training Purely on ad-hoc basis in the scale of Pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 21st October, 2008, until further orders.

HARISH CHANDER, Under Secy.

New Delhi, the 3rd December 2008

No. A.32013/1/2008-Ad.I(G)—The President is pleased to appoint Smt. Roli Singh, IAS (RJ:94), as Director in the pay band-4 (PB-4) Rs. 37,400—67,000+8,700/- (Grade Pay) in the Department of Personnel & Training with effect from the afternoon of 10th October 2008 for a period of five years, or until further orders, whichever is earlier.

P. K. MISRA, Under Secy.

New Delhi, the 26th November 2008

No. 24012/30/2007-Estt (B)—The President is pleased to appoint Shri Saiyed Aasim Mazhar Naqvi (IRSS-91), Deputy Chief Vigilance Officer, Northern Railway, New Delhi as Regional Director, Staff Selection Commission (Northern Region), New Delhi with effect from 27th October, 2008 (Afternoon) for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

SUNEEL K. ARORA, Under Secy.

The 27th November 2008

No. 24012/03/2008-Estt(B)—Consequent upon completing of tenure as per appointment order, Dr. (Smt.) C.T. Misra, demitted from the office of the Chairperson, Staff Selection Commission with effect from the afternoon of 27th October, 2008.

SUNEEL K. ARORA, Under Secy.

New Delhi, the 27th November 2008

No. 14015/10/2005-AIS(I)-A—In terms of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2005 on 19.11.2008 containing

the name(s) of the following member(s) of the State Civil Service of the State of Jharkhand prepared by the Selection Committee in its meeting held on 18.07.2008 towards filling up 7 (seven) existing vacancies in the Jharkhand cadre of the Indian Administrative Service, during 2005:—

#### SELECT LIST 2005

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Shri Pramod Kumar Sharma	25.07.1948
2.	Shri Ashok Kumar Sinha	10.01.1951
3.	Shri Badri Narain Das (S.C.)	03.07.1951
4.	Shri Bhagwan Prasad	03.05.1951
5.	Shri Gauri Shankar Prasad	11.02.1951
6.	Shri Birendra Kumar Mishra	20.04.1951
7.	Shri Vijay Kumar Singh	31.03.1952

2. In pursuance of order dated 22nd August, 2008 passed by Hon'ble CAT, Circuit Bench at Ranchi, the inclusion of the name of above officers in the said Select List is subject to the outcome of the O.A. No. 118/2008.

S.S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/10/2005-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following member(s) of the State Civil Service of Jharkhand to the Indian Administrative Service against the vacancies for the year 2005 on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Jharkhand Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:—

Sl. No.	Name of the Officer
1.	Shri Ashok Kumar Sinha
2.	Shri Badri Narain Das (S.C.)
3.	Shri Bhagwan Prasad
4.	Shri Gauri Shankar Prasad
5.	Shri Birendra Kumar Mishra
6.	Shri Vijay Kumar Singh

2. In pursuance of order dated 22nd August, 2008 passed by Hon'ble CAT, Circuit Bench at Ranchi, the appointment of the above officers in the said Select List is subject to the outcome of the O.A. No. 118/2008.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

The 3rd December 2008

No. 14015/29-2004-AIS(I)-A—In terms of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Review Select Lists of 1992-93 to 2006 on 17th April, 2008 containing the names of the following members of the State Civil Service of Punjab Cadre, prepared by the Selection Committee in pursuance of Hon'ble Supreme Court directions as contained in order dated 24.05.2006 in CA No. 6373 of 2001 in its meeting held on 25th February, 2008, towards filling up promotion quota vacancies for respective years in the Indian Administrative Service, Punjab Cadre:—

## REVIEW SELECT LIST 1992-93

S.No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri Smt.	
1.	Satinder Pal Singh	01.08.1950
2.	Surjit Singh Rajput	06.10.1951
3.	Kulbir Singh Sidhu	04.08.1946
4.	Jung Bahadur Goel	23.08.1946
5.	Sukhpal Singh Gill	25.07.1947
6.	Roshan Lal Kalsia (SC)	07.04.1947
7.	Jasbir Singh Bir	10.09.1950
8.	Kulbir Singh	05.09.1950
9.	Gurdev Singh Sidhu	17.01.1953
10.	Jagjit Puri	02.03.1951
11.	Bidhi Chand	15.06.1950
12.	Roshan Lal Kapoor	02.02.1950
13.	Paramjit Singh Aujla	21.11.1954
14.	Harjinder Singh Chahal	01.11.1939
15.	Hans Raj Megh (SC)	07.10.1949
16.	Jagjit Singh (SC)	22.12.1942

## REVIEW SELECT LIST 1993-94

1.	Jagjit Singh (SC)	22.12.1942
2.	Narinder Singh	05.07.1940
3.	Phulwant Singh Sidhu	10.04.1944
4.	Kulbir Singh Kang	17.12.1946
5.	Kanwal Bir Singh Sidhu	21.12.1948
6.	Gurinder Singh Grewal	12.07.1951
7.	Harjit Singh (I)	07.05.1951
8.	S. K. Ahluwalia	02.10.1948
9.	Sarup Singh Dhillon	22.07.1951

1	2	3
	S/Shri Smt.	
10.	Swinder Singh Puri	20.01.1944
11.	S. S. Sandhu	21.12.1951
12.	Babu Lal (SC)	28.02.1948

## REVIEW SELECT LIST 1994-95

1.	S. S. Sandhu	21.12.1951
2.	Babu Lal (SC)	28.02.1948
3.	Usha R. Sharma	24.03.1953
4.	Balbir Singh Sudan	12.11.1953
5.	Boota Ram Banga (SC)	05.02.1945
6.	Iqbal Singh Sidhu	07.11.1950
7.	Ranjit Singh (SC)	14.09.1947
8.	H.L.S. Grewal	23.11.1955

## REVIEW SELECT LIST 1995-96

1.	Mandeep Singh	19.05.1955
2.	Ranjit Singh (SC)	14.09.1947
3.	H.L.S. Grewal	23.11.1955
4.	Raminder Singh	12.03.1955

## REVIEW SELECT LIST 1996-97

1.	H.L.S. Grewal	23.11.1955
2.	Raminder Singh	12.03.1955
3.	Joginder Lal Jain	06.03.1943
4.	Kirandip Singh	20.09.1953
5.	Samir Kumar	27.10.1956
6.	Ashok Kumar	17.09.1955

## REVIEW SELECT LIST 1998

1.	Hans Raj Gangar (SC)	16.01.1946
2.	Karam Singh (SC)	01.01.1948
3.	Anurita Atwal	26.02.1947

## REVIEW SELECT LIST 1999

1.	Dr. Arvinder Singh	04.08.1955
2.	R. L. Mehta	26.04.1950

## REVIEW SELECT LIST 2000

1.	Satwant Singh	17.07.1954
2.	N. K. Wadhawan	16.09.1953
3.	A. S. Pannu	31.12.1956

## REVIEW SELECT LIST 2001

S/Shri/Smt.	
1. Ashok Kumar Singla	20.05.1952
2. Chander Sekhar Talwar	01.09.1962
3. Suresh Kumar Sharma	13.04.1953

## REVIEW SELECT LIST 2002

1. Dipinder Singh	18.06.1960
2. M. R. Aggarwal	19.07.1952

## REVIEW SELECT LIST 2003

1. Balwinder Singh	20.06.1954
--------------------	------------

## REVIEW SELECT LIST 2004

1. VK Ohri	04.11.1950
------------	------------

## REVIEW SELECT LIST 2005

1. Harohupinder Singh	28.02.1957
-----------------------	------------

## REVIEW SELECT LIST 2006

1. Prabhjot Singh Mand	03.03.1953
2. Arunjit Singh Miglani	01.10.1959

2. In the light of directions of the Hon'ble Supreme Court as contained in the order dated 25.05.2006 the Select Lists for the years 1992-93 to 2006 stand modified to the above extend and are subject to the ultimate results of the following writ petitions pending before the High Court:—

- (i) CWP No. 11001/2000 filed by Shri Mohinder Singh and another Vs. State of Punjab and Others.
- (ii) CWP No. 15421/2000 filed by Shri Harkesh Singh Sidhu Vs. State of Punjab and Others.
- (iii) CWP No. 15616/2000 filed by Shri Gopal Krishan and others Vs. State of Punjab and Others.
- (iv) CWP No. 6281/2003 filed by Shri Ajaib Singh Bhatti Vs. State of Punjab and Others.
- (v) CWP No. 5768/2007 filed by Shri Bhagwant Singh.
- (vi) CWP No. 6542/2007 filed by Shri Megh Raj.
- (vii) CWP No. 6543/2007 filed by Shri Surjit Singh.
- (viii) CWP No. 6869/2007 filed by Shri V. K. Ohri.
- (ix) CWP No. 686/2008 filed by Shri Khushi Ram Versus State of Punjab & Others before the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana at Chandigarh.
- (x) CWP No. 3297/2008 filed by Shri Gurpal Singh Bhatti Versus State of Punjab & Others before the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana at Chandigarh.
- (xi) O.A. No. 145/PB/2008 filed by Shri Bhagwant Singh versus Union of India & Others before the Hon'ble CAT, Chandigarh Bench.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

The 4th December 2008

No. 14015/20/2004-AIS(I)-B—In pursuance of Hon'ble Supreme Court directions contained in order dated 22.10.2008 in SLPs No. 12380 of 2008 and 12611-12615/2006 filed by Shri P.S. Mand and Others Vs. Bhagwant Singh and Others and in modification of appointment of SCS officers on the basis of pre-revised Select List for years 1992-93 to 2006 and in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Punjab Cadre to the Indian Administrative Service against the vacancies for the years 1992-93 to 2006 as indicated below on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Punjab Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:—

APPOINTMENTS FROM REVIEW SELECT LIST  
YEAR 1992-93

S.No.	Name of the Officer
1	2
	S/Shri/Smt.
1.	Satinder Pal Singh
2.	Surjit Singh Rajput
3.	Kulbir Singh Sidhu
4.	Jung Bahadur Goel
5.	Sukhpal Singh Gill
6.	Roshan Lal Kalsia (SC)
7.	Jasbir Singh Bir
8.	Kulbir Singh
9.	Gurdev Singh Sidhu
10.	Jagjit Puri
11.	Bidhi Chand
12.	Roshan Lal Kapoor
13.	Paramjit Singh Aujla
14.	Harjinder Singh Chahal
15.	Hans Raj Megh (SC)

APPOINTMENTS FROM REVIEW SELECT LIST  
YEAR 1993-94

1	2
	S/shri/Smt.
1.	Jagjit Singh (SC)
2.	Narinder Singh
3.	Phulwant Singh Sidhu

1	2
	S. Shri Smt.
4	Kulbir Singh Kang
5	Kanwal Bir Singh Sidhu
6	Gurinder Singh Grewal
7	Harjit Singh (I)
8	S. K. Ahluwalia
9	Sarup Singh Dhillon
10	Swinder Singh Puri
APPOINTMENTS FROM REVIEW SELECT LIST YEAR 1994-95	
1.	S. S. Sandhu
2.	Baba Lal (SC)
3.	Usha R. Sharma
4.	Balbir Singh Sudan
5.	Boota Ram Banga (SC)
6.	Iqbal Singh Sidhu
APPOINTMENTS FROM REVIEW SELECT LIST YEAR 1995-96	
1.	Mandeep Singh
2.	Ranjit Singh (SC)
APPOINTMENTS FROM REVIEW SELECT LIST YEAR 1996-97	
1.	H.S. Grewal
2.	Ranjinder Singh
3.	Kirandip Singh
4.	Samir Kumar
5.	Ashok Kumar
APPOINTMENTS FROM REVIEW SELECT LIST YEAR 1998	
1.	Hans Raj Gangar (SC)
2.	Karam Singh (SC)
3.	Anurita Arwal
APPOINTMENTS FROM REVIEW SELECT LIST YEAR 1999	
1.	Dr. Arvinder Singh
2.	R. L. Mehta

# APPOINTMENTS FROM REVIEW SELECT LIST YEAR 2000

1	2
	S. Shri Smt.
1.	Satwant Singh
2.	N. K. Wadhawan
3.	A. S. Pannu

# APPOINTMENTS FROM REVIEW SELECT LIST YEAR 2001

1. Ashok Kumar Singla
2. Chander Sekhar Talwar
3. Suresh Kumar Sharma

# APPOINTMENTS FROM REVIEW SELECT LIST YEAR 2002

1. Dipinder Singh
2. M. R. Aggarwal

# APPOINTMENTS FROM REVIEW SELECT LIST YEAR 2003

1. Balwinder Singh

# APPOINTMENTS FROM REVIEW SELECT LIST YEAR 2004

1. V.K. Ohri

# APPOINTMENTS FROM REVIEW SELECT LIST YEAR 2005

1. Harbimpinder Singh

# APPOINTMENTS FROM REVIEW SELECT LIST YEAR 2006

1. Prabhjot Singh Mand
2. Arunjit Singh Miglam

2. The above appointments are made on the basis of Review Select Lists prepared by Union Public Service Commission in pursuance of Hon'ble Supreme Court directions as contained in order dated 24.5.2006 in C.A. No. 6373/2001 and notified by this Department on 3rd December, 2008 and are subject to the ultimate results of the following writ petitions pending before the High Court:--

- (i) CWP No. 1990/2000 filed by Shri Mohinder Singh and another Vs. State of Punjab and Others.
- (ii) CWP No. 1512/2000 filed by Shri Harkesh Singh Sidhu Vs. State of Punjab and Others.
- (iii) CWP No. 15616/2000 filed by Shri Gopal Krishan and Others Vs. State of Punjab and Others.



- (iv) CWP No. 6281/2003 filed by Shri Ajaib Singh Bhatti Vs. State of Punjab and Others.
- (v) CWP No. 5768/2007 filed by Shri Bhagwant Singh.
- (vi) CWP No. 6542/2007 filed by Shri Megh Raj.
- (vii) CWP No. 6543/2007 filed by Shri Surjit Singh.
- (viii) CWP No. 6869/2007 filed by Shri V. K. Ohri.
- (ix) CWP No. 686/2008 filed by Shri Khushi Ram Versus State of Punjab & Others before the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana at Chandigarh.
- (x) CWP No. 3297/2008 filed by Shri Gurpal Singh Bhatti Versus State of Punjab & Others before the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana at Chandigarh.
- (xi) O.A. No. 145/PB/2008 filed by Shri Bhagwant Singh versus Union of India & Others before the Hon'ble CAT, Chandigarh Bench.

3. Pursuant to above directions of Hon'ble Supreme Court dated 22nd October, 2008 the Writ Petitioners who were already appointed to IAS on the basis of pre-revised Select Lists but no longer figure in above Review Select Lists shall be adjusted against any of the vacancies stated before the Hon'ble Supreme Court to be existing and will continue till appointments against those vacancies are notified by the Union of India.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

---

MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)  
New Delhi, the 17th June 2008

No. 51 (F. No. A.38013/8/2008-(Ad.I)—Shri O.P. Tanwar, an officer of CSS, posted as Section Officer in the Department of Revenue voluntarily retired from Government service on 13th June 2008 (FN), under Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 52 (F. No. A.19011/13/2008-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Najib Shah, IRS (C&CE:79), as Joint Secretary in the Department of Revenue for a period of five years w.e.f. 16.06.2008 (FN) or until further orders, whichever event takes place earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 19th June 2008

No. 53 (F. No. A.19014/09/2008-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Rajeev Kumar, a Regular Assistant of the Central Secretariat Service (CSS) on his promotion as Section Officer purely on ad-hoc basis in the Department of Revenue w.e.f. 18.06.2008 (FN) for a period upto 30.06.2008 or until further orders.

2. The aforeseaid short-term promotion of the above named officer will not bestow on him any claim for regular appointment and services rendered by him on short-term basis in the grade will not be counted for promotion in the next higher grade.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 30th June 2008

No. 54 (F. No. A.19012/4/2008-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Pranav Khullar, IP&TA&FS (1993) as Director in the Department of Revenue for a period of five years with effect from 25.06.2008 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 1st July 2008

No. 55 (F. No. A.19012/18/2007-Ad.I)—In continuation of this Department's Notification No. 104 dated 12.04.2007, the President is pleased to appoint Shri Ansuman Pattanaik, IRS (IT:94) Deputy Secretary as Director in the Department of Revenue, as a measure personal to him, w.e.f. 30.06.2008 (FN), for the balance period of his five years tenure i.e., upto 12.11.2009, or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 15th July 2008

No. 58 (F. No. A.19011/16/2008-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri N. B. Singh, Indian Revenue Service (IT: 1971) as Chairman of the Central Board of Direct Taxes in the Department of Revenue, Ministry of Finance, w.e.f. 30th June, 2008 (AN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 3rd September 2008

No. 70 (F. No. A.19013/19/2002-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri N. Rajagopalan, presently posted as Under Secretary in the Department of Revenue, to the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service, purely on adhoc basis, by upgrading the post of Under Secretary to Deputy Secretary on personal basis w.e.f. 01.08.2008 (FN) and until further orders.

2. The ad-hoc promotion is subject to the following conditions:

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.
- (ii) Ad-hoc arrangements may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 18th September 2008

No. 71 (F. No. A-19013/8/2006-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri V. K. Luthra, presently posted as Under Secretary in the Department of Revenue, to the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service, purely on adhoc basis w.e.f. 1.09.2008 (FN) and until further orders.

2. The ad-hoc promotion is subject to the following conditions:

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection grade.
- (ii) Ad-hoc arrangements may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 30th September 2008

No. 72 (F. No. A-19011/19/2008-Ad.I)—The President is pleased to appoint Ms. Pamela Bhandari, Indian Revenue Service Officer (Income Tax: 72008), as Income Tax Ombudsman at Chandigarh in the pay scale of Rs. 24,050-650-26,000 - (pre-revised) for a period of 2 years with effect from 31.08.2008 (AN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 6th October 2008

No. 77 (F.No. A-19013/26/2004-Ad.I)—In continuation of this Department's Notification Nos. 92 dated 26.10.2004 and 103 dated 12.10.2007, the tenure of deputation of Shri K. J. Nautiyal, an officer of Indian Revenue Service (C&CE) as Senior Technical Officer in the Central Economic Intelligence Bureau, Department of Revenue is extended for a period of one year w.e.f. 01.10.08 (FN) to 30.09.09 (AN) i.e. for the 5th year of deputation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 24th November 2008

No. A-12011 12/2008-Admn.II—Consequent upon the inclusion of their names in the Select List of Steno Grade 'A&B' (merged) of CSSS for the year 2005 vide Department of Personnel & Training's OM No. A-5/12/2007-CS II dated 5.11.2008, the President is pleased to appoint the following Personal Assistant of CSSS at present working as Private Secretary on ad-hoc basis in the Department of Economic Affairs, as Private Secretary of CSSS on regular basis in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the scale of pay of Rs. 9300--34800+4800/- (Grade Pay) in

PB-2 with effect from the forenoon of 19.11.2008:—

Sl.No.	Name
1.	Ms. Rekha Gupta
2.	Ms. Neeraja Jayaraman
3.	Ms. Samosh Malhotra
4.	Smt. Rama Marthy

V. RAMKUMAR, Under Secy.

The 3rd December 2008

No. A-19011 12/2008-Admn.II—Consequent upon demitting of the office of the Finance Minister by Shri P. Chidambaram, Dr. Shubhashis Gangopadhyay, Adviser to Finance Minister, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance is relieved of his duties in this Department with effect from the afternoon of 1st December 2008.

2. Accordingly, the contract agreement dated 4th February 2008 between Dr. Shubhashis Gangopadhyay and the Government of India stands terminated from that date.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 3rd December 2008

No. A-19012 03/2005-Admn.IA—Consequent upon his promotion from Higher Administrative Grade (HAG) to Higher Administrative Grade-plus (HAG+) vide IES Cadre Order No. 13016/1/2008-IES (Part) dated 28th November, 2008, the President is pleased to appoint Shri R. C. Srinivasan, IES, working as Senior Economic Adviser in the Department of Economic Affairs (DEA) as Principal Adviser in the same Department in the revised pay of Rs. 80,000/- (fixed) from 1st December, 2008 to 30th June, 2009 against the temporary diverted post to DEA from the Planning Commission.

S. K. VERMA, Dir.

#### MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION)

New Delhi, the 8th October 2008

No. A-45011 07/2006-E.I.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Section Officers' Grade (Seniority Quota) for the year 2004, vide Department of Personnel & Training's OM No. 6/3/2006-CS.I(S) dated 12.8.2008 the President is pleased to appoint the following officers as Section Officer on regular basis in the Central Secretariat Service Cadre of the Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce & Industry, with effect from the forenoon of 12.8.2008, until further orders:—

Sl. No.	Name	SCSL No./SL year of Asstt.	Name of Deputt. Office where presently posted
	S/Shri		
1.	R. K. Jaiswal	200/1990	D/IPP
2.	V. K. Gupta	250/1990	D/HI
3.	Manik Chakraborty	475/1990	D/IPP

The appointment of these persons to the Grade of Section Officers of CSS shall be subject to the outcome of Writ Petition (c) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander V/s UOI before the High Court, Delhi and OA No. 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha V/s UOI before the Central Administrative Tribunal, New Delhi. Financial benefits like the Non Functional Scale etc. to be granted to the above officers shall be subject to the outcome of the above mentioned two court cases.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

#### MINISTRY OF EARTH SCIENCES

New Delhi-110003, the 1st December 2008

No. MoES/31/3/2007-Estt.—The competent authority in the Ministry of Earth Sciences is pleased to promote S/Shri Ashim Kumar Mazumdar and S.K. Choudhary, Junior Technical Assistants to the post of Junior Analyst on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- (pre-revised) in the Ministry of Earth Sciences w.e.f. 23.10.2008 to 22.4.2009 or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment will not confer any right for regularization of the same for the benefits such as seniority etc. on a future date. The Ministry reserves the right to terminate the ad-hoc appointment without assigning any reasons or giving notices etc. to the officers concerned.

SANDESH SAXENA, Under Secy.

#### MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 16th October 2008

No. 17016/24/2000-IFS-II—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 and with the concurrence of the Government of Jharkhand and Government of Andhra Pradesh, the competent authority has approved the inter cadre deputation of Shri D. Venkateswarlu, IFS (JH: 96) from Jharkhand cadre to Andhra Pradesh cadre for a period of five years with effect from the date of his joining in Andhra Pradesh Government.

A. K. LAL, Dir.

The 3rd November 2008

No. 19011/18/2008-IFS-I—The President is pleased to appoint Shri R. K. Goel, an Indian Forest Service Officer of 1977, Year of Allotment borne on AGMUT Cadre of IFS, to the post of Inspector General of Forests in the Ministry of Environment and Forests on deputation basis under the Central Staffing Scheme of the Ministry of Environment and Forests in the Pay Band 4 (Rs. 37400—67000+Grade Pay Rs. 10,000/-) with effect from the forenoon of 3rd November, 2008 and upto 23rd October, 2010 or until further orders, whichever is earlier.

A. K. LAL, Dir.

New Delhi-110003, the 25th August 2008

No. 8-13/2004-EE(M)—The President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Reena Dey, Senior Educational Assistant, National Museum of Natural History (NMNH), New Delhi to the post of Scientist 'C', National Museum of Natural History (NMNH), a Subordinate Office of the Ministry of Environment and Forests in the scale of pay of Rs. 10,000-15,200/- on direct recruitment basis with effect from the forenoon of 14th August, 2008 and until further orders.

J. SRIRAMAN, Under Secy.

The 25th September 2008

No. 8(24)/2005-EE(M)—The President is pleased to appoint on promotion under the Flexible Complementing Scheme, Shri G. N. Indresha and Smt. Naaz Rizvi, as Scientist 'C' in the pay scale of Rs. 10000-15200/-, in the National Museum of Natural History (NMNH), New Delhi with effect from 04 August 2008 (Forenoon) and until further orders.

2. The two lower posts of Scientist 'B' in the pay scale of Rs. 8000-13500/-, vacated by Shri G. N. Indresha and Smt. Naaz Rizvi, in the NMNH stand abolished from the date of their promotion.

J. SRIRAMAN, Under Secy.

No. 8(24)/2005-EE(M)—The President is pleased to appoint on promotion under the Flexible Complementing Scheme, Dr. P. Ray, and Shri R. R. Bakade, as Scientist 'D' in the pay scale of Rs. 12000-16500/-, in the National Museum of Natural History (NMNH), New Delhi with effect from 04 August 2008 (Forenoon) and until further orders.

2. The two lower posts of Scientist 'C' in the pay scale of Rs. 10000-15200/-, vacated by Dr. P. Ray and Shri R. R. Bakade, in the NMNH stand abolished from the date of their promotion.

J. SRIRAMAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 20th November 2008

No. A.12025/1/2008-CHS.VI—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. V. Manicavassou as Dental Surgeon in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- (Pre-revised) on probation and to post him as Dental Surgeon at C.G.H.S., Delhi, Safdarjang Hospital, New Delhi with effect from the forenoon of 14th August, 2008 and until further orders.

PAWAN KUMAR, Under Secy.

The 3rd December 2008

No. A.38020/1/2005-CHS.VI—On attaining the age of superannuation, Dr. (Smt.) G. K. Sachar, Staff Surgeon

(Dental) (NFSG), at CGHS, Delhi, retired from government service with effect from the afternoon of the 31st May, 2008.

PAWAN KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 3rd December 2008

No. A-12025 15 2008-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Gowri Nambiar Sengupta to the post of Public Health Specialist Grade II in the Public Health Sub-Cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 13th October, 2008 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

No. A-12025 38 2007-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Pikee Saxena to the post of Assistant professor of Obst. & Gynae. in the Teaching Sub-Cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of the 25.01.2008 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

No. A-12025 7 2008-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Pragya Sharma to the post of Public Health Specialist Grade II in the Public Health Sub-Cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 6th October 2008 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

New Delhi-110108, the 4th December 2008

No. A-12025 41 2007-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Indu Bhushan Kumar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 07.05.2008 until further orders. Dr. Indu Bhushan Kumar is posted as Medical Officer under Central Institute of Psychiatry, Ranchi. Dr. Indu Bhushan Kumar shall be on probation for two years.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

No. A-12025 168 2006-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Chandra Prakash to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 21.02.2008 until further orders. Dr. Chandra Prakash is posted as Medical Officer under

Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Chandra Prakash will be on probation for two years.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA AND  
NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY  
(AYUSH)

New Delhi, the 25th November 2008

No. A-19011 03 2008-AYUSH(E-II)—In pursuance of DoPT's letter No. 5 11 2008-EO(SM-I) dt. 24th November 2008 the President is pleased to appoint Shri B. Anand an Officer belonging to Indian Administrative Service (TN:87) as Joint Secretary, Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), Ministry of Health & Family Welfare in the scale of pay of Rs. 18400-22400/- (pre-revised) w.e.f. the afternoon of 25th November 2008 and until further orders.

T. S. BHATIA, Dy. Secy.

The 26th November 2008

No. A-19011 1/2006-AYUSH(E-II)—In pursuance of DoPT's letter No. 5.8/2005-EO(SM-I) dated 12.11.2008 Sh. Verghese Samuel IAS (J&K:76), Joint Secretary in the Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), Ministry of Health & Family Welfare, stands relieved of his duties in the Department of AYUSH w.e.f. the afternoon of 28.11.2008.

Sh. Verghese Samuel (IAS (J&K:76), shall report to the Chief Secretary, Govt. of Jammu & Kashmir for his next posting.

T. S. BHATIA, Dy. Secy.

No. A-12022 199-ISM(E-II)—In pursuance of DoPT's O.M. No. 23 4 2008-EO(MM-I) dt. 7.7.2008, the Services of Shri Sanjeev Kumar Chadha, IFS (OR:89), Director in the Deptt. of Ayush, on his lateral shift, are placed at the disposal of Ministry of Environment and Forests w.e.f. the forenoon of 1st December, 2008 for further placing his services at the disposal of the Central Empowered Committee (CEC) (on secondment)

T. S. BHATIA, Dy. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE  
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & CO-OPERATION)

New Delhi, the 5th December 2008

No. 38017 1 2008-M-I—On attaining the age of superannuation Shri P. G. Choudhary, Senior Marketing Officer, Directorate of Marketing & Inspection, Branch Head Office, Nagpur has retired from Govt. service on 31.10.2008 (AN).

RADHEY SHYAM, Under Secy.

## MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 20th November 2008

No. 11019/2/2005-Estt.—In pursuance of Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Office Order No. 13016/2/2008-IES dated 31.10.2008, the President is pleased to relieve Shri B. C. Munda, Economic Adviser in this Ministry with effect from the afternoon of 10.11.2008 to take up his new assignment in the Ministry of Social Justice & Empowerment.

A. K. SAHA, Under Secy.

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS &amp; INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110 003, the 26th November 2008

No. 3(9)/2008-P.I.—The Secretary, Department of Information Technology is pleased to appoint on promotion Smt. Muni Devi, Assistant as Section Officer in this Department in the Grade of Rs. 4800/- in Pay Band-2 i.e. Rs. 9300-34800/- with effect from the forenoon of 26.11.2008.

2. Her appointment is against a vacancy due to regular incumbent away on deputation and in case of reversion of such deputationist, she will be reverted to her substantive post of Assistant if not adjusted against regular vacancy.”

GIRISH SAHAI, Dy. Dir.

The 28th November 2008

No. 4(406)/88-Pers.I—On attaining the age of superannuation, Dr. S. L. Sarnot, Director General, Standardization, Testing and Quality Certification (E.Code:67)—an attached office under Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology will retire from service with effect from afternoon of 30.11.2008.

GIRISH SAHAI, Dy. Dir.

No. 4(202)/82-Pers.I—On attaining the age of superannuation, Dr. T. K. Seshadri, Scientist 'G' (Emp. Code

No. 111) in the Department of Information Technology will retire from service with effect from afternoon of 30.11.2008.

GIRISH SAHAI, Dy. Dir.

## MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 3rd December 2008

No. A. 31013/01/03-RS—The President is pleased to appoint Shri K. J. S. Naidu, an officiating Commissioner of Railway Safety in the substantive capacity in the same post with effect from 15.12.2007.

OMA NAND, Under Secy.

## MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi-110001, the 1st December 2008

No. ERB-I/2007/10/4—Shri Mohammad Ashraf, Private Secretary, Railway Board expired on 29.11.2008.

MATHEW JOHN, Secy.  
Railway Board

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 3rd December 2008

No. A-22013/4/89-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri R. C. Mishra, IAS (MT:78) as Additional Secretary in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 12,000/- in this Ministry w.e.f. 21.11.2008(F/N) until further orders.

V. K. SHARMA, Dir. (Admn.)

## MINISTRY OF LABOUR &amp; EMPLOYMENT

New Delhi, the 5th December 2008

No. A-32012/05/2008-ISH.II—The President is pleased to appoint Shri H. K. Srivastava to the post of Director of Mines Safety (Mechanical) in the Directorate General of Mines Safety, Dhanbad in the pre-revised pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/-, with effect from 01.11.2008 (F/N) and until further orders.

SUBHASH CHAND, Under Secy.